## MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17124MP1991PLC006324

Registered Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur M.P. 458001 IN Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore 452003(M.P.)
Tel. 07422-234999; Email id- csmidindia@gmail.com, Website:www.midindiaindustries.com

Date: 08th February, 2024

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: - Submission of Copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine month ended  $31^{st}$  December, 2023.

Ref:- MID INDIA INDUSTRIES LTD (BSE Script Code: 500277, ISIN: INE401C01018)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Extracts of Unaudited Financial Results for Quarter and Nine month ended 31st December, 2023 published in News Paper i.e. Free press Mumbai & Indore (in English) and Choutha Sansar (in Hindi) & Nav Shakti Mumbai on 8th February, 2024.

You are requested to please take the same on record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
FOR MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

CS SHAILENDRA KUMAR AGRAWAL COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER FCS-12104

# GLOBAL BULLETIN

#### Azerbaijan holds snap presidential poll

Baku: Azerbaijanis are voting Wednesday in an election almost certain to give incumbent President Ilhan Aliyev another seven-year term, following his government's swift reclaiming of a region formerly controlled by ethnic Armenian separatists. Aliyev, 62, has been in power for more than 20 years, succeeding his father who was Azerbaijan's Communist boss and then its president when it became independent

#### Radioactive water leaks from N-plant

after the 1991 Soviet

collapse.

Tokyo: Approximately 5.5 tons of water containing radioactive materials have leaked from equipment at Japan's Fukushima Daiichi nuclear power plant, local media reported. Workers discovered water leaking from the outlet of a device used to purify nuclearcontaminated water. Fukushima Central Television reported, citing the plant's operator Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

#### Five earthquakes rock Vietnam

Hanoi: Five earthquakes hit Vietnam's Kon Tum province on Wednesday. All the earthquakes caused no disaster risk as the strongest guake occurred at 10:11:50 (Hanoi time) with a magnitude of 4.0 and focal depth at about 8.1 km. Vietnam News Agency reported. Four other earthquakes occurred one hour later with magnitudes of 3.3, 2.8, 2.5 and 3.7 and focal depths ranging from 8.1 to 10.1 km, Xinhua news agency reported.

#### Five killed in Cambodia car crash

Phnom Penh: Five people were killed in a road accident in Speu province in Cambodia's Samraong Tong district on Wednesday. The accident occurred on the Phnom Penh-Sihanoukville Expressway at 6:44 a.m. local time when a fast driving car crashed into a guardrail at a curve, said Tab Lon, provincial deputy police chief in charge of road traffic. The accident occurred as the vehicle was being speedily driven, Xinhua news agency reported.

Change in Name

I SHABBIR HUSAIN Here by

Declare That I have changed

DHARIWALA S/O IMDAD

HUSAIN so, from now and In

future I will be known by my

Add:102, FAKHRI MANZIL.

NEAR, LOKMANYA NAGAR

SHABBIR DHARIWALA

**BADRI BAGH COLONY** 

S/O IMDAD HUSAIN

My name as SHABBIR

new name

# PTI alleges worst ever political engg in decades

#### **PAK VOTES TODAY**

LAHORE/ Agencies

Pakistan is witnessing its "worst ever political engineering" in decades at the hands of the powerful military establishment to achieve "desired results" to form a government of its choosing in February 8 elections, jailed former prime minister Imran Khan's party alleged on Wednesday. In the 2024 polls, the cricketer-turnedpolitician Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) is on the wrong side of the military establishment while three-time premier Nawaz Sharif has ap-

peared to be its darling. Mainstream parties like the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan Peoples Party (PPP) have had massive campaigning while the PTI was stopped by police



and intelligence agencies from doing any kind of campaign, mostly in Punjab. Since the PTI candidates are contesting independently because the Supreme Court upheld the decision of the Election Commission of Pakistan (ECP) to deprive it of its iconic election symbol cricket 'bat', some have withdrawn their candidature last minute in favour of the establishment-

backed candidates.

# **BIG ROLE**

Jailed intra-party elections.

#### rights bodies have expressed dismay over the failure of

**Rights bodies** 

express concern

Islamabad: Ahead of the general elections in Pakistan on Thursday, prominent major political parties to allocate at least five per cent of their party candidates for women on general seats. The legal requirement is set in Section 206 of the Elections Act 2017, the major statute that deals with all aspects of elections

## SOCIAL **MEDIA PLAYING**

Peshawar: Social media is playing a key role in generating a vote bank for the mainstream national parties in the general elections in Pakistan, voting for which is on Thursday. former prime minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) party is leading the social media campaign for its candidates contesting as independents on multiple different symbols after the Supreme Court ruling stripped off its electoral symbol, the iconic cricket bat, in a case related to

Russia fired cruise and bal listic missiles and Shahedtype drones at targets across Ukraine on Wednesday morning, authorities reported, killing at least three civilians and injuring 10 others, including a pregnant woman. The attacks targeted at least three major cities, including the capital Kyiv, where the European Union's top diplomat, Josep Borrell, was discussing military aid and financial support for Ukraine.

That Western help is desperately needed by Ukraine, which is struggling with ammunition and personnel shortages. Some long-term foreign funding is also in doubt as the war nears its two-year anniversary on Feb. 24. Though the roughly 1,500-kilometer (900-mile) front line has barely budged in recent months, the Kremlin's forces have the upper hand in stocks of missiles and artillery ammunition used for long-range strikes. Ukraine's Armed Forces

Change in Name

I SHRIRAM have changed

PATIDAR S/O HEERA and

now I would be known as

SHRIRAM PATIDAR

ADD: - SIRSALA,

POST. KAROLI, DIST.

S/O HEERA

DHAR(M.P.)

my name to SHRIRAM



said they intercepted 44 drones and missiles out of 64 that were launched in the morning attack.

The barrage killed two people in Kyiv, Ukrainian

President Volodymyr Zelenskyy said. The attack also killed a man in Mykolaiv, a city in southern Ukraine, where some 20 residential buildings and

damaged, regional Gov. Vitalii Kim said. Thirteen people were injured in Kyiv, according to Mayor Vitalii Klitschko, including a pregnant woman. Apartment buildings

caught fire in multiple Kyiv districts, he said.

A Senate deal on border enforcement measures and Ukraine aid suffered a swift and total collapse Tuesday as Republicans withdrew support despite President Joe Biden urging Congress to "show some spine" and stand up to Donald Trump.

# Nikki Haley suffers stinging defeat

ONLINE REPORT

Nikki Haley has suffered a humiliating defeat in the Republican primary in Nevada, despite facing no competition in the absence of Donald Trump.

She received fewer votes than "None of these candidates" by a large margin, the Associated Press projected. The Nevada governor had advocated voting in this way as a protest because Ms Haley will skip Thursday's caucuses.



Donald Trump runs unopposed in that vote as he closes in on the presidential nomination. With 86% precincts reported, "None" had 63% of Tuesday's primary votes and Ms Haley had 31%. But the contest is non-binding because it has been disavowed by the Republican Party. All the state's 26 delegates that contribute to the nomination are up for grabs in the caucuses.

So the victory for "none of these candidates" in the primary will have no official impact on the race.

But it reflects the strength of Mr Trump that the backlash against Ms Haley resulted in her effectively losing the vote.

## Secy of state Blinken meets Israeli leaders



#### **Hamas** responds to proposed cease-fire

JERUSALEM / Agencies

Hamas has put forward a detailed plan for a new cease-fire and hostage release deal with Israel, which will be discussed US Secretary of when State Antony Blinken meets Wednesday with Israeli leaders.

Qatar's prime minister said Tuesday that Hamas gave a "generally positive' answer to the latest plan for Gaza, but the Palestinian militant group's response would effectively leave the militant group in power in Gaza and allow it to rebuild its military capabilities, a scenario that Israel adamantly rejects.

More than half of Gaza's population of 2.3 million people is now crammed into the town of Rafah on the border with Egypt and surrounding areas, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said Tuesday. The Palestinian death toll after nearly four months of war has reached 27,707 people, the Health Ministry in Gaza said. A quarter of Gaza's residents are starving and 85 per cent of the population has been driven from their

#### TRENDING ON **GAZA FRONT**

- Diapers and baby formula are hard to find in Gaza, leaving parents desperate.
- main Gaza's agency is on the brink. The European Union, a key donor, is wavering over what to
- France pays homage to victims of Hamas' October 7 attack in Israel with national ceremony led by Macron.
- Senate Democrats push to require that Biden consult Congress on weapons sales to Israel.
- Qatar says Hamas gave a "generally positive" response to a cease-fire proposal.

homes, with hundreds of thousands surviving in makeshift tent camps.

Meanwhile, Israel has confirmed the death of 31 of the 136 hostages in the custody of Hamas in Gaza. The army has informed families of those hostages about the death of their loved one's, IDF said in a statement on Tuesday.

On the other hand, seven people were killed and 13 others wounded after an Israeli missile hit targeted areas in the Syria's Homs province early on Wednesday, a health official said.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

एक परिवार *ए*क बैंक

688 - M.G. Road, Indore - Ph. No. 0731-2433887 E-mail: cmmarc\_ind@mahabank.co.in Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-5

Zonal Office: Maharashtra Sahitya Sabha,

Possession Notice Rule 8(1) FOR IMMOVABLE PROPERTY

WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank Of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice on dates mentioned below calling upon to the following borrowers/guarantors to repay the Bank's dues ithin 60 days from the date of receipt of the said Notice. The notice/s was sent by Regd. Post, Speed Post and Courier. The borrowers / guarantors having failed to repay the amount, Notice is here by given to the borrower/ guarantor and the public general that the undersigned has taken Possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates given as in the table The borrower/s / guarantor/s in particular and the public in general, is hereby cautioned not to deal with the properties and any

Sr. Name of the Borrower, Guarantor & Branch	Outstanding Amount	Description of Property	Notice Date Possession Date
Borrower-Mr. Asif Khan S/o Mr. Latif Khan & Co- 11. Borrower-Mr. Tanveer Khan S/o Mr. Asif Khan & Mrs. Shabana W/o Mr. Asif Khan, Guarantor - Mr. Rajendra Sharma S/o Kashinath Sharma	9,33,009.00 + Unapplied Interest at Contractual rates w.e.f. 02.11.2023	Mortgage of all Pieces and Parcels of Land together with the buildings and structures/residential block constructed House at Plot No. 30-F-C-1, Scheme No.71, Sector-D, Indore, Tah. & DistIndore, Admeasuring area 96.00 Sq. Mts., Bounded as:- East- Plot No.31-D- Scheme No.71, West- Plot No.30-E-C Scheme No.71, North- Plot No.4-R-B & 5R-B Scheme No.71, South-9 Mtrs. Wide road. (Owner: Mr. Asif Khan S/o Mr.Latif Khan)	

in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Indore, Date : 08.02.2024

Authorized Officer, Bank of Maharashtra

## RLY STATION, INDORE, (M.P.) CHANGE OF NAME

I D sampath kumari W/O JC 333516F Rank Sub Darla Devaraju Resident 49/50A Sri ram nagar, C Camp Kurnool District Kurnool (AP) have changed my W/O name & DOB from Sampath Kumari to D Sampath Kumari W/O sub Darla Devaraju and DOB 15 may 1979 from now and on future I will be know by new name. Add. D sampath kumari W/O Darla Devaraju

Kurnool district kurnool (AP)

49/50A ram nagar, c Camp,

## Change in Name

It is to bring kind Notice to the people that my daughter previous name HUSAINA has been changed to HUSAINA DHARIWALA D/O SHABBIR DHARIWALA Therefore, in future my daughter will be known by the her new name only

SHABBIR DHARIWALA S/O IMDAD HUSAIN Add:102, FAKHRI MANZIL, BADRI BAGH COLONY, NEAR LOKMANYA NAGAR STATION, INDORE(M.P.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में **कविता** यशोना था. जो अब कविता ठाकुर हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

कविता ठाकुर पताः १९३, डी.के.एन. स्कीन नं. 74-सी, इंदौर (म.प्र.)

## Change in Name

I SARA W/O NURUDDIN Here by Declare That I have changed My name as SARA SINGOTWALA W/O NURUDDIN so, from now and In future I will be known by my new name SARA SINGOTWALA W/O NURUDDIN Add:1/7.SAROJANI NAYDU MARG, KHANDWA(M.P.)

## Change in Name

I JUZER ALI Here by Declare That I have changed My name as JUZER ALI COLLEGEWALA S/O HAIDER ALI so, from now and In future I will be known by

my new name. JUZER ALI COLLEGEWALA S/O HAIDER ALI Add:78,MOHAMMEDI TOWNSHIP.HAIDERY TOWNSHIP, B-BLOCK, BIJALPUR INDORE(M.P.)

## Change in Name

I NAZAR HUSAIN **ENGINEERIWALA** Here by Declare That I have changed My name as NAZAR **ENGINEERI WALA S/O** TAIYAB ALI so, from now and In future I will be known by my new name NAZAR ENGINEERI WALA S/O TAIYAB ALI Add:FLAT NO.102, ZAIN PLAZA, 787, KHATIWALA TANK, INDORE(M.P.)

#### Muthoot Homefin (India) Ltd. **P4** Muthoot Homefin

Corporate Office : Unit No. 19-NE, 19th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Near Ruparel College, Dadar (West), Mumbai, Maharashtra- 400 028

POSSESSION NOTICE (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest(Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Muthoot Homefin (India) Ltd.** for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Sr. Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Loan Account No./Branch		Date of Demand Notice & Total Outstanding Dues (Rs.)	Possession Taken Date
1. Chanchal Chhari/ Varsha	Part of Block No. C-11, Survey No. 1078/1 Min, Ph No 75, Ward No. 22, Vindhyachal Colony, Behind Vandana Convent Ke Piche, Kasba Guna, Madhya Pradesh- 473001	27-Oct-2023/ Rs. 3,86,899/- (Rupees Three Lakh Eighty Six Thousand Eight Hundred Ninety Nine Only.)	02-Feb-24

Place: Guna

Muthoot Homefin (India) Limited

#### CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED **APRIGLOBAL** Registered & Corporate Office : 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office :- 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi – 110060

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under the Securitisation

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub -section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe

secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGCL for an amount as mentioned herein under with nterest thereon. Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) **Description of Secured Asset** Demand Notice Date of (Immovable Property) Date & Amount Possession (Loan Account No All that piece and parcel of Property bearing 16-11-2023 03-02-2024 LNMESHA000081289

Karu Lal Chamar (Borrower) Mrs. Jamna Bai Chamar. Satyanarayan Limja Chamai

of our Shamgarh Branch)

House No. 12, Area Admeasuring 4880 Sq. Rs. Ft. (453.36 Sq. Mts.), Ward No. 09, PH No. 12, Village Semrol (Khadawada), Gram Panchavat Semrol, Tehsil Garoth, District Mandsaur, Madhya Pradesh 458880, Bounded As:East: Land of Sh. Karulal Chamar, West: Common Road North: Land of Sh. Lekhraj, S/o Sh. Balashankar, South: House of Sh

Place: MANDSAUR Date: 08-FEB-2024 Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)

#### Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months Ended 31st December, 2023
Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Amount In Lakhs Except EPS)

Year to Date Corresponding Figures 31.12.2023 **Particulars Previous Year** 31.12.2023 31.12.2022 (Unaudited) Total Income from Operations 188.68 1469.27 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) 16.62 104.03 Net Profit / (Loss) for the period before tax 57.81 (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 44.96 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) -16.02 14.02 42.78 and Other Comprehensive Income (after tax)] 1630.00 1630.00 1630.00 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown -2038.37 in the Audited Balance Sheet of the previous year) Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)

Diluted : (in ₹) -0.1Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 is available on the website of the Company i.e. www.midindiaindustries.com

For Mid India Industries Limited

0.09

Place: Indore te : 06.02.2024

(for continuing and discontinued operations)

and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

Sd/-Sanjay Singh, Chairman & Managing Director DIN: 01548011

#### (Eq.) Muthoot Homefin

#### Muthoot Homefin (India) Ltd. Corporate Office: Unit No. 19-NE, 19th Floor, The Ruby, Sen Near Ruparel College, Dadar (West), Mumbai, Maharashtra

POSSESSION NOTICE (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest(Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Muthoot Homefin (India) Ltd.** for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redoom the occurred exercise.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Loan Account No./Branch	Brief details of secured assets	Date of Demand Notice & Total Outstanding Dues (Rs.)	Possession Taken Date
1.	Gopal Kumawat/ Munni Devi/ 011-01100465/ Indore	Part Plot No. 117, Malav Kunj Village Sejwaya Ghata Billod Madhya Pradesh- 454773	27-Oct-2023/ Rs. 10,40,641/- (Rupees Ten Lakh Fourty Thousand Six Hundred Fourty One Only.)	03-Feb-24
2.	Shubham Sen/ Santosh Bai Sen/ 011-01100989/ Indore Plot No. 181, Tilak Nagar, Sector B, Tigriya Raokanadiya Bypass, Indore, Mp- 452005		27-Oct-2023/ Rs. 10,89,152/- (Rupees Ten Lakh Eighty Nine Thousand One Hundred Fifty Two Only.)	03-Feb-24
3.	Bhim Singh Rathour/ Sima Kunwar Rathour/ Gopal Singh Rathour/ 041-04100315/ Ratlam	Patwari Halka No. 43, Khasara No. 122 Gram Sinod Th & Dis Ratlam Madhya Pradesh- 457441	27-Oct-2023/ Rs. 4,09,486/- (Rupees Four Lakh Nine Thousand Four Hundred Eighty Six Only.)	02-Feb-24
4. Kelash Chandra Yadav/ Radha Bai/ 041-04100318/ Ratlam		Plot No. 66 Ward No. 03 , Patwari Halka No. 54, Survey No. 355/812, Gram Bagedi, Teh Khachrod & Dis Ujjain Near By Nag Maharaj Temple Madhya Pradesh- 456313	27-Oct-2023/ Rs. 3,61,230/- (Rupees Three Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Thirty Only.)	02-Feb-24
5.	Chunnilal Koshlya/ Krishana Bai/ 072-07200027/ Ujjain	P.H.No. 32, Survey No. 62, House No. 33 Gram Chhayan, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006	27-Oct-2023/ Rs. 2,18,417/- (Rupees Two Lakh Eighteen Thousand Four Hundred Seventeen Only.)	03-Feb-24
6.	Makhan Rathore/ Manisha Rathore/ 072-07200488/ Ujjain	H No. 146, Ph No. 61, Ward No. 04, Survey No. 120, Village Jhittarkhedi Ghatiya Ujjian Madhya Pradesh- 456550	27-Oct-2023/ Rs. 4,50,099/- (Rupees Four Lakh Fifty Thousand Ninety Nine Only.)	02-Feb-24
7.	Ravindra Harisingh/ Radha/ UJJ-HL-000599/ Ujjain	at North Part of House No. 94 Tirupari Dham Colony Kanipura Road Tehsil and Dist Ujjian Mp- 456006	27-Oct-2023/ Rs. 11,82,698/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Two Thousand Six Hundred Ninety Eight Only.)	02-Feb-24
8. Rudra Pratapsingh Dodiya/ Bhagwan Singh/ Tej Kunwar/ 072-07200318/ Ujjain		P.H.No. 24, Survey No. 193 H No. 243, Vill Ratnyakhedi Nagda Dist Ujjain Madhya Pradesh- 456443	28-Nov-2023/ Rs. 5,63,256/- (Rupees Five Lakh Sixty Three Thousand Two Hundred Fifty Six Only.)	03-Feb-24

Date: February 08, 2024 Place: Indore, Ratlam, Ujjair

Sd/- Authorized Officer Muthoot Homefin (India) Limited

प्रदेश सरकार ने फिर लिया

३००० करोड का कर्ज

१५ दिन में ५५०० करोड का ऋण

करोड़ का कर्ज लिया है। 23 जनवरी को 2500 करोड़ रुपए का कर्ज

लिया गया था। वहीं, 7 फरवरी को 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाजार

से लिया गया। यह 1500-1500 करोड़ के रूप में 16 और 17 वर्षों

31 मार्च से पहले 8000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी

आठ हजार करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। इसके पहले

आरबीआई की गाइडलाइन के आधार पर मंगलवार 6 फरवरी को बिडिंग

के जरिए 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज लेने की

प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसका भुगतान 7 फरवरी बुधवार को हुआ। एक

कर्ज में भुगतान की समय अवधि 7 फरवरी 40 और दूसरे में 7 फरवरी

41 रखी गई है। इसके पहले जनवरी में ही 24 जनवरी को 2500 करोड़

रुपए का कर्ज लिया गया था जिसे 24 फरवरी 40 तक चुकाना होगा।

चुनाव परिणाम के पहले लिया था 2 हजार करोड़ का लोन

2023 को 2 हजार करोड़ रुपए का लिया गया था। शिवराज सरकार के

दौरान चुनाव परिणाम घोषित होने के पहले भी 28 नवंबर को दो हजार

करोड़ का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के दौरान

कांग्रेस के चुनावी मुद्दा बनाए जाने के चलते राज्य सरकार ने नवंबर महीने

इसके पहले मोहन सरकार बनने के बाद पहला कर्ज 27 दिसंबर

वित्त वर्ष की समाप्ति के पहले सरकार 31 मार्च तक अभी बाजार से

भोपाल ,(निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने 15 दिन के अंतराल में 5500

उट्ट कु

## रेजर शो के लिए बनाया ६ करोड का फाउंटेन बना कबाड़

भोपाल,(निप्र)। भोपाल के बड़े तालाब पर बन विहार रोड पर बना रेजर शो फाउंटेन तो ६ करोड़ से अधिक लागत में तैयार किया गया था। टेस्टिंग भी उसके हो चुकी थी। दुसरे पिछले साल तैयार हो गया था। उसके लगाने में भी करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, फिर भी शुरू नहीं किया गया। जिम्मेदारों से बात की तो उन्होने जल्द ही शुरू करने का आश्वासन देकर है। इस गर्मियों में भी इन्हे शुरू नहीं किया तो यह कबाड़ होने की संमावना है। गौरतलब है कि छोटे तालाब के नीलम पार्क में 2010 के दशक में बना म्युजिकल फाउंटेन तीन साल ठेका कंपनी ने तो चलाया लेकिन इसके बाद जिम्मेदारों ने घाटे का सौदा मानकर उसे दोबारा शुरू नहीं किया। बड़े तालाब पर इस फाउंटेन के ओपन बनाया गया है। जिसे आते जाते लोग भी देख सकते है। दर्शकों को बैठकर देखने के लिए सडके के दूसरी ओर बने सेल्फी पाइंट को रिजर्व किया गया है। वहां केबिन के साथ ही दोनों ओर गेट भी लगा दिए गए है। जबकि वन विहार मार्ग पर बने रेजर शो के लिए तालाब किनारे पूरा परिसर दर्शक दीर्घा से लेकर अन्य व्यवस्था भी की हुई है।

### भोपाल में भी मिल रह सस्ता चावल,29 रुपए किलो

भोपाल,(निप्र)। केंद्र सरकार ने चावल आटा समेत अन्य बहउपयोगी अनाज पर रियायती रेट तय किए हैं। जिसके कारण पूरे देश में खाद्य अनाज तय कीमत पर सरकार बेच रही है। भोपाल में भी इसकी शुरुआत हो गई है। राजधानी में बुधवार र्से २९ रूपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर मिल रहा है। सरकार ने इसके लिए राजधानी में 6 से 7 वैन लगाकर जगह-जगह चावल की डिलीवरी शुरू की है। नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से चावल की बिक्री की जा रही है। शासन के परमानेंट स्टॉल से भी ग्राहक चावल खरीद सकेंगे। इसके अलावा राशन वैन के माध्यम से भी जगह जगह पर चावल उपलब्ध है। केंद्र सरकार के निर्देश पर स्थायी स्टॉल लगाकर भी सस्ता चावल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। भोपाल में ग्राहक एमपी नगर जोन २ में ऑफिस परिसर, बिट्?टन मार्केट स्थित प्रियदर्शनी मार्केट, बावड़िया कला में नेकोफ डे टू-डे स्टोर पर भी चावल खरीदे सकते हैं। इन सभी जगहों पर स्थायी स्टोर लगाए गए हैं। अच्छी क्वॉलिटी का साबुत चावल २९ रूपए प्रति किलोग्राम में मिलेगा। वर्तमान में इस तरह के चावल की बाजार में कीमत 40 से ४२ रुपए प्रति किलो है। ग्राहकों को यह चावल ५ और १० किलोग्राम के पैक में मिलेगा। एक व्यक्ति अधिकतम २० किलोग्राम चावल ले सकता है। बता दें केंद्र सरकार महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सहकारी सहमतियों के जरिए भारत ब्रांड के तहत ह्यभारत गेंह और भारत दाल भी बेचती है। भारत गेह प्रति किलो २७.५५ रुपए और चने की दाल ६० रुपए प्रतिकिलों में उपलब्ध है। अब भारत चावल भी ३० रूपए प्रति किलों

## मप्र विधानसभा सत्र का पहला दिन

# राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाई उपलिधयां

कांग्रेस ने अभिभाषण को दिया अधूरा करार 🔳 विपक्ष ने किया अभिभाषण के दौरान वॉकआउट 🖿 वॉकआउट करने को बताया गलत परंपरा भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला 🔳 मंत्री पहलाद पटेल ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों ■ कहा-कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्पाल का अभिभाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण में करीब 59 प्वाइंट्स में सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां बताईं। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पढ़े भी। इसके बाद सदन से चले गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को अधुरा करार देते हुए कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। इस पर अब सियासत हो रही है।

अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा आजादी के अमृतकाल का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है। मंगुभाई पटेल ने कहा कि चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। वहीं राज्यपाल ने आधा अधूरा अभिभाषण पढ़ने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में किसानों को 2700 रुपए समर्थन मुल्य का वादा किया था लेकिन अभिभाषण में उसका जिक्र ही नहीं किया। विपक्षी विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे। जब सदन से राज्यपाल मंगूभाई पटेल रवाना हो रहे थे। इस बीच विपक्षी विधायक नारेबाजी करते रहे। राज्यपाल के साथ-साथ विपक्षी विधायक भी सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपये में सिलेंडर एसपी में धान गेहं खरीदी सहित कई वादे करके सरकार में आए। राज्यपाल के भाषण में उनका जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा की हरदा में जिस तरह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। उसका भी कोई जिक्र नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार किया है और इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इस मद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह राम का विरोध किया। अब सरकार की योजनाओं का विरोध करके चर्चा में बनी रहना चाहती है। एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। कुल 13 दिनी सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में 9 बैठकें होंगी। पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण में जिसे तरह से विपक्ष ने हंगामा किया। उससे आसार नजर आ रहे हैं। इस सत्र में विपक्ष के सदस्य सरकार को सदन में घेरने की पूरी रणनीति बनाए हुए हैं।

राज्यपाल ने सरकार की कई उपलब्धियों का किया जिक्र-

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते

हए कहा राज्याप ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहंचाया गया है। जहां-रूप में विकसित किया जाएगा। 724 सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि केन-प्रदेश में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में 7 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना है।

#### अभिभाषण अधूरा छोड़ सदन से चले गए राज्यपाल

अभिभाषण पूरा पढ़े बगैर ही सदन से निकल गए। कांग्रेस के विरोध के बाद जब राज्यपाल चले गए तो विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि जो अभी भाषण नहीं पढ़ा गया है। उसे पढ़ा हुआ माना जाए। बता दें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और वहीं अंतरिम बजट पेश करेंगे।

जहां मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं। उन स्थानों को तीर्थ के किलोमीटर लंबी 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं की बेतना. पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राज्यपाल ने कहा कि

हालांकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपना

## आचार संहिता लागू होने के बाद लिया था 3 बार कर्ज

की अवधि के लिए है।

इसके बाद तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अक्टूबर महीने में ही तीन बार में 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके पहले सितंबर महीने में राज्य सरकार ने घोषणाओं के क्रियान्वयन समेत कर्मचारियों और अन्य वर्गों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए 4500

#### में शुरूआत में कर्ज नहीं लिया था लेकिन काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर के पांच दिन पहले कर्ज लेना ही पड़ा था।

मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर को चुनावी आचार संहिता लागू हुई थी। करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

## आम स्वना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकसीत विश्व बैंक अतिरिक्त जसवाडी रोड़ खण्डवा में भूखण्ड क्रमांक एल द्वितीय-59 एल आई जी मंडल द्वारा श्री अशोक राव देशमुख पिता श्री दशरथ देशमुख के नाम से आबॉटित है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 13/12/2007 को पंजीकृत है। आबंटि की मृत्यु दिनांक 21/3/2018 को हो जाने से इनकी पत्नि श्रीमती संगीता देशमुख पति स्व. श्री अशोकराव देशमुख द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपने तीन बच्चों की सहमती का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अन्य कोई वारसान नहीं होने बाबर शपथ पत्र देकर उक्त संपत्ति को अपने नाम नामांतरण करने हेतु आवेदन किया गया है। श्री अशोक राव देशमुख की मृत्यु उपरांत उनकी पिन्न श्रीमती संगीता देशमुख पित स्व. श्री अशोकराव देशमुख के नाम प्राप्त आवेदन अनुसार नामांतरण करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/वित्तिय संस्था/परिवार के सदस्य इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयाविध समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही कि जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी म. प्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खण्डवा

# जबलपुर महापौर ने कांग्रेस छोड़ी, मुख्यमंत्री के सामने ली बीजेपी की सदस्यता

भोपाल,(निप्र)। लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के महाकौशल में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। 📗 जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोडकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अयोध्या में राम

मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, उस दिन मैं आहत हुआ था। इसके अलावा डिंडौरी से जिला पंचायत अध्यक्ष ने चार पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने भाजपा की सदस्यता ली है।

जबलपुर से कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्न भैया' आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ भाजपा में आए हैं। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए हम प्रयत्नशील है। अब कांग्रेस के मन में भी मोदी दिख रहा है। कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर सकते। यही कारण है कि अन्तू भैया भाजपा में

शामिल हो रहे हैं। वही मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि एक पार्टी परिवार को बढ़ा रही है, जबिक भाजपा परिवार को बढ़ाने का उदहारण दे रही है। भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी हो गया है। आप लोग उसका ही हिस्सा बन रहे हैं। भाजपा का परिवार बढता जा रहा। अब भाजपा

ज्वाइन करने वाले वेटिंग में हैं।

भाजपा की विचारधारा ने किया प्रभावित-भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ले रहे हैं। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि भाजपा ज्वाइन करने के कई बड़े कारण हैं। जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। वे बहुत आहत हुए। भाजपा के विकास और पीएम मोदी की गारंटी को लेकर विचार भी कर रहा था। जबलपुर की उन्नति के लिए डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन जोडना जरूरी था। वे जिन लोगों के समर्थन से महापौर बना। उन सबका कहना था कि अपनी विचारधारा बीजेपी से मिलती है।

## भाजपा सरकार ने की मतदाताओं से वादा-खिलाफी मोपाल,(निप्र)। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही

कमलनाथ ने साधा सरकार पर बड़ा आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जमकर हंगामा किया। इसी बात पर अब पूर्व सीएम ने सवाल उटाए हैं। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की

डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से तीन बड़े वादे किए थे। जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को ३००० रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना में 3000 रुपये देने की कोई बात नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी घोषणा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मल्य २७०० रुपए पति विवटल और तीसरी घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मुल्य ३१०० रूपये प्रति विवंटल

पॉलीसी क्र. 347130847 में नाम परिवर्तन हेतू उक्त सूचना जारी की गई है किसी को ऐतराज होने पर 15 दिन मे सचित करे। श्रीमती नित नया नाम नतन महाजन वार्ड नं. 22 षिव मंदिर के पास मालीवाडा, बुरहानपुर (म.प्र.)

गई। स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहन यादव

सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ

और खासकर महिलाओं तथा किसान

भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने

का इरादा रखती है और चुनाव में किए

गए वादों से पलट चुकी है। यह सरासर

खिलाफ हर स्तर पर आवाज उटाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम श्रीमती नितू था, परंतु

वर्तमान में मैंने अपना नाम नूतन महाजन

कर लिया है। मेरे सभी डॉक्युमेंट इसी नाम

से है। भारतीय जीवन बीमा निगम क

धोखा है और कांग्रेस पार्टी इसके

### कार्यालय नगर पालिका परिषद् नागदा जिला उज्जैन पिनकोड-456335

दूरभाष क्रमांक /07360-238036 फैक्स 07360-230151 ई मेल cmonagda@mpurban.gov.in क्रमांक एफ/राजस्व/2024/571 नागदा दिनांक 31/01/2024

**जाहिर सूचना** एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद नागदा के स्वामित्व की . जवाहर मार्ग रेल्वे जंगले के पास स्थित दुकान क्रमांक 03 का नामांतरण हो विमलचन्द्र जैन पिता गेतीलाल जी जैन के स्थान पर श्री अभय चौपड़ा पिता स्व श्री मनोहरलाल चौपड़ा <u>88 मनोह</u> वाटिका नागदा के नाम से अचल संपत्ति अंतरण नियम 24 फरवरी 2016 एवं संशोधित नियम दिनांक 01 मई 2021 नियम 04 (01) (02) के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त नाम के नामांतरण पर आपनि हो वह अपनी आपनि ०७ दिवस के भीतर लिखित रूप में इस निकाय की राजस्व शाखा मे प्रस्तुत करें। बाद अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी

> मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद नागदा

### हरदा के बाद एक्शन में प्रशासन,भोपाल में पटाखा गोदाम किये खाली

भोपाल,(निप्र)। भोपाल-इंदौर हाईवे पर जमुनिया और कोलू खेडी में पिछले कई सालों से पटाखा व्यापारियों ने अपने-अपने गोदाम बना कर रखे हैं। बता दें कि यहां पर लगभग 15 ऐसे गोदाम है। जिनमें पटाखे कोने-कोने तक रखी हुई है। दरअसल हरदा धमाके के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को 24 घंटे के अंदर गोदामों और फटाखा फैक्ट्रीयों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिसका असर बैरागढ के समीप स्थित गांव जमोनियां, कोलुखेड़ी में फटाखों के गोदाम को व्यापारियों ने आनन-फानन में खाली कर दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं गोदाम-वहीं भोपाल-इंदौर हाईवे पर जमुनिया और कोलू खेड़ी में पिछले कई सालों से पटाखा व्यापारियों ने अपने-अपने गोदाम बना कर रखे हैं। बता दें कि यहां पर लगभग 15 ऐसे गोदाम है। जिनमें पटाखे कोने-कोने तक रखी हुई है। जिन स्थानों पर यह गोदाम बनाए गए हैं। वह ग्रामीण क्षेत्र है। इसके साथ ही बकानिया डिपो भी है, जहां गैस और पेट्रोल के रिफाइनरी सेंटर बने हुए हैं। वहीं इस हादसे के बाद कोलुखेड़ी में सभी व्यापारियों ने अपने गोदाम में रखा हुआ सामान इधर-उधर कर दिया।

## करने की की थी। लेकिन न्यूनतम गांव मुलगी में 8 दिन से

पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगली में 8 दिन से लाइट नहीं होने के कारण बच्चों के भविष्य अंधेरे में बोर्ड की परीक्षा में बच्चे कैसे करें पढाई सरपंच ज्ञान सिंह ठाकर द्वारा बिजली विभाग में शिकायत की गई तीन दिन बाद विधायक के कहने पर डीपी तो पहुंचा दी मगर लाइनमैन ने ट्रांसफार्मर को रखने की बजाय वापस बिजली घर पहुंचा दिया जिसका दो दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पता नहीं नहीं की ट्रांसफार्मर कब लगेगा और गांव में कब उजाला होगा सबसे

आष्टा,(निप्र)।



ज्यादा परेशानी छात्र-छात्राओं को उठानी पड रही है क्योंकि इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है ऐसे में गांव में लाइट नहीं होने कारण बच्चों के भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है।

बिजली विभाग नहीं दे रहा ध्यान- जब आज ग्रामीणों ने लाइनमेन से बात की तो चढा देंगे कल चढ़ा देंगे नहीं तो परसों चढ़ा देंगे ऐसे में बच्चों का भविष्य का क्या होगा। सुपरवाइजर देवडा फोन उठाने को तैयार नहीं। सरपंच ज्ञान सिंह ठाकर का कहना मैं लड़ झगड कर जैसे तैसे डीपी लाया था मगर लाइनमैन बिजली घर वापस ले गए। अब टांसफार्मर लगाने में क्यों देरी हो रही यहां तो बिजली विभाग के अफसर ही जाने लेकिन उनकी लापरवाही का खामीयाजा आज ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है और अंधेरे में रहने को मजबूर

#### Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months Ended 31st December, 2023

Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Amount In Lakhs Except EPS)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	parieum m zuma zmeept zir e			
Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Corresponding 3 Months ended in Previous Year 31.12.2022 (Unaudited)	Year to Date Figures 31.12.2023 (Unaudited)		
Total Income from Operations	14.9	188.68	1469.27		
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-15.5	16.62	104.03		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	16.62	57.81		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	14.02	44.96		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-16.02	14.02	42.78		
Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	_	-	-2038.37		
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic : (in ₹) Diluted : (in ₹)	-0.1 -0.1	0.09 0.09	0.26 0.26		

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 is available on the website of the Company i.e. www.midindiaindustries.com and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

For Mid India Industries Limited Sd/-Sanjay Singh, Chairman & Managing Directo DIN: 01548011

Place: Indore Date: 06.02.2024

# छात्र -छात्राओं की फीस एवं मुआवजा देने की मांग

कॉलेज संचालक को गिरफ्तार करने की मांग , को लेकर कलेक्टर को लिखा पत्र

आष्टा,(निप्र)। शहर के महादेव नर्सिंग कॉलेज के नाम से चल रही फर्जीवाडे की दकान को लेकर मामला गरमाता जा रहा है । छात्र- छात्राओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ( एनएसयुआई ) के नेता विजय सोलंकी इस मामले को लगातार उठा रहे हैं । सोलंकी ने सीहोर कलेक्टर को पत्र लिखकर कॉलेज के संचालक हर्षवर्धन श्रुंगी पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए कहा कि लगातर नर्सिंग कॉलेज द्वारा छात्रों के साथ धोखाधडी का मामला बढ़ते जा रहा है । महादेव नर्सिंग कॉलेज द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया



है । एडिमशन के नाम पर मोटी रकम वसूल करके अंधकार में रखा जा रहा है न तो कॉलेज के पास बिल्डिंग है न हॉस्पिटल। छात्र

नेता विजय सोलंकी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा छात्र- छात्राओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता हैं ।



हो रहा है पड़ रहा है।

# कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन

छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन

(Online) GEM-Portal निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र. 1120/Workshop/GEM-Tender/2024 उज्जैन दिनांक 06/02/24 निम्नांकित कार्य के लिए (Online)GEM-Portal निविदा क्रमांक GEM/2024/B/4587889 आमंत्रित की जाती है। GEM-Portal की अंतिम दिनांक 27.02.2023 समय 13.00 रहेगी। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट https//gem.gov.in/ पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना आनलाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जातेगी।

1 71-171	1710 161 40 -114 111			
क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्ट मनी रु.	समय अवधि
1	2	3	4	5
1	Truck Mounted single Engine Sweeper	4,00,00,000/-	12,00,000/-	60 दिवस
	Machine 5 Cu. Mt. Capacity (Q3)			

सहायक यंत्री नगर पालिक निगम उज्जैन

CIN No.:- L72900MH2000PLC123843 Regd. Office:-Aptech House, A-65, M.I.D.C., Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093 Contact No.:- 022-68282300 Fax No:- 022-68282399 Email:- info@aptech.ac.in Website:- www.aptech-worldwide.com
STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023

Particulars	Quarter ended December 23	Quarter ended September 23	Quarter ended December 22	Nine Months Ended December, 23	Nine Months ended December, 22	Year ended March, 23
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	10,064.37	10,931.83	11,745.54	33,274.29	27,845.66	45,691.68
Net Profit/(Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,016.57	1,613.71	2,402.95	4,080.69	4,613.60	8226.1
Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items/Associates)	909.27	1,601.84	2,402.95	3,634.24	4,613.60	8226.1
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items/Associates) from Continuing Operations	674.66	1,142.90	1,776.64	2,628.95	3,433.23	6768.71
Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	599.51	1,126.63	1,655.44	2,563.76	3,338.50	6654.93
Equity Share Capital	5,798.81	5,797.52	4,139.51	5,798.81	4,139.51	4141.45
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						21,493.90
Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - Basic & Diluted						
Basic :	1.16	1.97	3.07	4.53	5.93	11.69
Diluted:	1.16	1.97	3.06	4.53	5.91	11.67

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Results are available on the Stock Exchange websites i.e. https://www bseindia.com/ and https://www.nseindia.com/
- For the quarter and nine months ended December 31 2023 on a Standalone basis, Aptech Limited has reported (a) Turnover of Rs. 4534.16 Lakhs and Rs. 16801.56 lakhs respectively (b) Profit/(loss) before tax of Rs.464.72 lakhs and Rs. 3914.69 lakhs respectively and (c) Profit/(loss) after tax of Rs. 315.21 Lakhs and Rs. 3306.52 lakhs respectively.

Date: 07th February 2024 DIN: 00653997 Place: Mumbai Whole time Director and interim CEC



#### GTL Limited

Registered Office: "Global Vision", Electronic Sadan - II, MIDC, TTC Industrial Area Mahape, Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India. | Tel: +91 22 2761 2929 | Fax: +91 22 2768 9990 Email: gtlshares@gtllimited.com | Website: www.gtllimited.com | CIN: L40300MH1987PLC045657

#### EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2023

			(₹ lakhs unless	s otherwise stated)
		Quarter ended	Period ended	Quarter ended
П	Particulars	31-Dec-23	31-Dec-23	31-Dec-22
IL		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from operations	4,346.00	13,623.28	4,589.49
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	382.31	1,064.21	(44.14)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	382.31	7,460.12	(44.14)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	382.31	7,460.12	(44.14)
5	Total Profit / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	298.80	7,382.09	(88.43)
6	Paid up equity share capital (face value of ₹ 10 per share)	15,729.68	15,729.68	15,729.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year	N.A.	N.A.	N.A.
8	B Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations) (Face value of ₹ 10/- each)*	0.24	4.74	(0.03)
IL	*Basic & Diluted, not annualized			

#### Notes

- 1. The above financial results and the notes thereto have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on
- 2. The financial results for the period ended December 31, 2023 are in compliance with Indian Accounting Standard (Ind -AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs (as amended) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 3. Modified opinion of the Auditor As mentioned in Note No. 6 to the Statement, the Company has neither paid nor provided interest on its borrowings during the quarter ended December 31, 2023. Had such interest been recognised, the finance cost and interest liability for the quarter ended December 31, 2023 would have been more by ₹ 10,678.93 Lakh. Consequently, the reported Profit after Other Comprehensive Income by the Company for the quarter ended December 31, 2023 would have been a loss of ₹ 10,380.13 Lakh. The Earnings per Share (EPS) would have been Negative ₹ 6.55.
- 4. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 / 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and www.nseindia.com and the Company's website www.gtllimited.com For GTL Limited

Date: February 7, 2024 Place: Mumbai

: महाराष्ट्र शासन : उपनिबंधक, सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय ए.सी.सी.कंपाउंड, जे.एस.डी.मार्ग, मुलुंड(पश्चिम), मुंबई- 400080 जा.क्र./मुंबई/उपनि/टि-वि/सुनावणी/बी-2/3487/2024 दिनांक 05/02/2024 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154(बी)29 दावा क्रमांक -30/2023 जाहिर नोटीस

श्री.नितिन एच.ठक्कर आणि श्री.हिरजी एल.ठक्कर, सदनिका क्रं.सी 2, 1504/1604, लोक

एव्हरेस्ट को-ऑप.हौ.सोसा.लि.,जे.एस.डी.रोड, मुलुंड(प.),मुंबई-400080. .... प्रतिवादी

विषय- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154(बी)29 अन्वये सुनावणी

2) या कार्यालयातील सुनावणी दिनांक 03/10/2023, 26/10/2023, 23/11/2023,

लोक एव्हरेस्ट को-ऑप.हौ.सोसा. लि., जे.एस.डी.रोड, मुलुंड (प.), मुंबई- 400080 या

संस्थेचे सभासद श्री.नितिन एच.ठक्कर आणि श्री.हिरजी एल.ठक्कर, सदनिका क्रं.सी 2,

1504/1604, यांचे विरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154(बी)29

उपरोक्त दावा या कार्यालयात दिनांक 07/08/2023 रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर दावाच्या अनुषंगाने या कार्यालयात उपरोक्त संदर्भ क्रं. 2 मध्ये नमूद तारखांना या कार्यालयात सुनावणी आयोजीत करण्यांत आलेली होती. तथापि, सदर एकाही सुनावणीस आपण उपस्थित राहिलेला नाही. सबब सदरप्रकरणी पुढील सुनावणी दिनांक 22/02/2024 रोजी दुपारी 01.30 वाजता निश्चित करण्यात आलेली आहे. तरी आपण नेमून दिलेल्या दिवशी व वेळी उपरोक्त कार्यालयात आवश्यक त्या कागदापत्रासह स्वतः उपस्थित राहून आपले म्हणणे नमूद करावे. तसेच आपणांस कळविण्यात येते की, आपण जर या दिवशी सुनावणीस गैरहजर वा लेखी म्हणणे सादर न केल्यास आपले उपरोक्त दाव्यासंदर्भात काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धस्न दावा

TRANS FREIGHT CONTAINERS LTD. CIN: L34203MH1974PLC018009 Regd. Off. Mulund Ind. Services Co.op. Society Ltd., Nahur Road, Mulund (W), Mumbai 400 080 EXTRACT STATEMENT FOR STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2023

संदर्भ: 1) संस्थेचा दिनांक 07/08/2023 रोजी प्राप्त अर्ज.

28/12/2023 व 23/01/2024.

अन्वये वसूलीसाठी दावा दाखल केलेला आहे.

एकतर्फी निकाली काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

**Particulars** 

Net Profit / (-Loss) for the period (before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(-Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive

Reserves (excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous Accounting Year) Earnings Per Share (before extraordinary

Earnings Per Share (after extraordinary

Net Profit/(-Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary Items

Income (after tax)]

items) (of Rs.10/-each)

items) (of Rs.10/- each)

Diluted

www.bseindia.com

Paid-up Equity Share Capital Face Value of Rs. 10/- Per Share)

Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (- Loss) for the period before tax

Total income from operatons (net

Sunil S. Valavalkar Whole-time Director (DIN: 01799698)

# NSE 🕽

ह्याद्वारे सचना देण्यात येते की नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एक्स्चेंज) ह्यांचे खालील ट्रेडिंग

परित्य	परित्याग करण्यासाठी विनती केलेली आहे.									
ानु ज्यांक	ट्रेडिंग सभासदाचे नाव	एसईबीआय नोंदणी क्रमांक	तक्रार दाखल् केल्याची अखेरची तारीख							
	Daiwa Capital Markets India Private Limited		08 एप्रिल 2024							

देण्यात येत आहे की उपरिनिर्दिष्ट ट्रेडिंग सभासदाच्या विरूध्द त्यांनी त्यांची काही तक्रार असल्यास ती वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रार दाखल करण्याच्या अखेरच्या तारखेर कालावधीच्या नंतर उपरिनिर्दिष्ट टेडिंग सभासदाविरूध्य अशा प्रकारे दाखल केलेल्या तक्रारीस एक्स्चेंजकडून प्रतिसाद दिला जाणार नाही आणि उपरिनिर्दिष्ट टेडिंग सभासदाविरुध्द अशा तक्रारी राहिल्याचं मानलं जाणार नाही किंवा अशी काही तकार असल्यास तिला सद दिल्याच मानण्यात येईल उपरिनिर्दिष्ट ट्रेडिंग सभासदाविरूध्द दाखल करण्यात आलेल्या तकारीवरची कार्यवाही एक्स्चेंज/एनसीएलचे निर्बंध, कायदे आणि नियम ह्याद्वारे करण्यात येईल. तक्रार https://ww w.nseindia.com/invest/file-a-complaint-online येथे ऑनलाइन दाखल करता येऊ शकेल. शिवाय तकारीचे फॉर्म्स

येथूनही डाउनलोड करू शकाल किंवा मुंबई येथील एक्स्चेंज कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालयात्नही ह नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड करित

load-complaint-form-for-offline-registratio

स्थळ: मुंबई तारीख: 08 फेब्रुवारी 2024 Nifty50

# Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

#### **Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months** Ended 31st December, 2023

Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Amount In Lakhs Except EPS)

<i>(</i>						
Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Corresponding 3 Months ended in Previous Year 31.12.2022 (Unaudited)	Year to Date Figures 31.12.2023 (Unaudited)			
Total Income from Operations	14.9	188.68	1469.27			
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-15.5	16.62	104.03			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	16.62	57.81			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	14.02	44.96			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-16.02	14.02	42.78			
Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-2038.37			
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic : (in ₹) Diluted : (in ₹)	-0.1 -0.1	0.09 0.09	0.26 0.26			

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 is available on the website of the Company i.e. www.midindiaindustries.com and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com. For Mid India Industries Limited

Place: Indore

Sanjay Singh, Chairman & Managing Director DIN: 01548011



#### बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

सीआयएन: एल६५१००एमएच१९६०पीएलसी०११८३५

२२/बी, मित्तल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ इमेल आयडी : contact@bomoxy.com, वेबसाईटः www.bomoxy.com

३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा उतारा

(रु. लाखात)

		संपलेली तिमाही		संपलेले :	नऊ महिने	संपलेले वर्ष
तपशील	३१.१२.२०२३ (अलेखापरिक्षित)	३०.०९.२०२३ (अलेखापरिक्षित)	३१.१२.२०२२ (अलेखापरिक्षित)	३१.१२.२०२३ (अलेखापरिक्षित)	३१.१२.२०२२ (अलेखापरिक्षित)	३१.०३.२०२३ (लेखापरिक्षित)
प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	२,२३१.७७	१,४०६.८४	७१२.७१	५,८१८.१५	९०८.८९	२६१.८०
वर्षाकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक आणि/किंवा अनन्यसाधारण बार्बीपूर्वी)	२,१८७.९८	१,३६३.६२	६६६.२६	५,६८५.८०	७७५.९१	५०१.९५
करपूर्व वर्षाकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक आणि/किंवा अनन्यसाधारण बाबीनंतर)	२,१८७.९८	१,३६३.६२	६६६.२६	५,६८५.८०	७७५.९१	५०१.९५
करपश्चात वर्षाकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक आणि/किंवा अनन्यसाधारण बाबीनंतर)	१,७४७.१६	१,१८६.४५	६०१.६०	४,८९०.६४	७०८.९०	४९२.४६
वर्षासाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर वर्षासाठी नफा किंवा (तोटा) आणि करोत्तर इतर सर्वसमावेशक						
उत्पन्न धरून)	४,०१९.१०	३,२२९.८३	१,८३४.६७	१०,८७२.०२	१,३९५.९७	७१८.२३
समभाग भांडवल	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
प्रत्येकी रु. १००/- चे प्रती भाग प्राप्ती (ईपीएस) - मूलभूत आणि सौम्यिकृत (अवार्षिक)	१,१६४.७७	७९०.९६	४०१.०७	३,२६०.४३	४७२.६०	३२८.३१
<del></del> .						

- १) वरील सुधारित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सादर केलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता निष्कर्षांच्या तपशिलवार विवरणाचा एक उतारा आहे. संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिने वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण विवरण स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ बीएसईची www.bseindia.com आणि कंपनीचे संकेतस्थळ www.bomoxy.com वर उपलब्ध आहे.
- २) ३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता वरील अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष ७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या त्यांच्या सभेत लेखापरीक्षण समितीद्वारे पुनर्विलोकीत करण्यात आले संचालक मंडळाकडे शिफारस केले आणि त्यानंतर संचालक मंडळाद्वारे मंजुर करण्यात आले.
- ३) सुधारित सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ अन्वये आवश्यक असल्याने वैधानिक लेखापरीक्षकांनी ३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता वित्तीय निष्कर्ष पुनर्विलोकित केले आहेत.
- ४) वित्तीय निष्कर्ष कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३३ अन्वये विहित सुधारित (इंडएएस) कंपनीज (इंडियन अकाऊंटिंग स्टॅण्डर्डस्) रुल्स २०१५ आणि लागू इतर लेखा पद्धती आणि धोरणेनसार तयार करण्यात आले आहेत
- ५) मागील तिमाहीची तुलनात्मक वित्तीय माहिती ही चालू तिमाहीच्या आकडेवारीशी सुसंगत होण्यासाठी आवश्यक तेथे पुनर्गठित/पुनरीचित करण्यात आली आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरुन

For Year

हेमा रेंगानाथन पूर्ण वेळ संचालक ठिकाण: मंबई दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०२४ डीआयएन: ०८६८४८८१



Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400 001

Tel: 022-67009000; Email Id: investor.relations@trent-tata.com; Website: www.trentlimited.com; CIN - L24240MH1952PLC008951

STANDALONE

## Statement of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023

For Nine Months ended

ended

Chairman

CONSOLIDATED

For Nine Months ended

No.	Particulars	31st Dec, 2023	30 <sup>th</sup> Sept, 2023	31 <sup>st</sup> Dec, 2022	31st Dec, 2023	31 <sup>st</sup> Dec, 2022	31st March, 2023	31 <sup>st</sup> Dec, 2023	30 <sup>th</sup> Sept, 2023	31 <sup>st</sup> Dec, 2022	31 <sup>st</sup> Dec, 2023	31 <sup>st</sup> Dec, 2022	31st March, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	3,389.30	3,041.80	2,244.55	9,017.30	5,920.55	8,126.89	3,546.95	3,062.47	2,365.24	9,289.81	6,234.88	8,502.94
2	Net Profit/(Loss) for the quarter / period/ year (before tax,	446.69	374.76	209.53	1,014.25	585.73	710.51	475.19	314.32	204.46	1,001.80	488.30	555.07
	exceptional and /or extraordinary items)												
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/ period/ year (before tax	446.69	374.76	209.53	1,014.25	585.73	710.51	475.19	314.32	204.46	1,001.80	488.30	552.07
	after exceptional and /or extraordinary items)												
4	Net Profit/(Loss) for the quarter/ period/ year (after tax	343.60	289.67	160.97	781.54	449.44	554.57	370.64	228.06	154.81	765.37	348.68	393.63
	after exceptional and /or extraordinary items)												
5	Total Comprehensive Income after tax for the quarter/ period	346.43	289.73	160.46	786.13	294.37	399.00	375.48	228.94	154.06	773.51	194.57	245.80
	/ year (Comprising Profit/ (Loss) for the quarter/ period/												
	year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))												
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.1 per	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55
	Equity Share)												
7	Other equity	3,752.31	3,405.88	2,939.75	3,752.31	2,939.75	3,044.39	3,251.62	2,878.27	2,499.64	3,251.62	2,499.64	2,559.94
8	Securities Premium Account	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30	1,924.30
9	Networth	3,787.86	3,441.43	2,975.30	3,787.86	2,975.30	3,079.94	3,287.17	2,913.82	2,535.19	3,287.17	2,535.19	2,595.49
	Paid up Debt Capital/outstanding Debt	4,866.01	4,695.28	4,426.89	4,866.01	4,426.89	4,318.58	5,013.45	4,839.34	4,584.02	5,013.45	4,584.02	4,464.14
	Outstanding Redeemable Preference Shares												
	Debt Equity Ratio				1.28	1.49	1.40				1.48	1.76	1.68
13	Earning Per Share (of Re. 1/- each) (not annualised):												
	(a) Basic	9.67	8.15	4.53	21.99	12.64	15.60	10.53	6.60	4.70	22.01	10.99	12.51
l I	(b) Diluted	9.67	8.15	4.53	21.99	12.64	15.60	10.53	6.60	4.70	22.01	10.99	12.51
	Capital Redemption Reserves	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	Debenture Redemption Reserve	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Debt Service Coverage Ratio				2.91	2.03	1.64				2.84	1.75	1.35
	Interest Service Coverage Ratio				4.68	3.19	3.00				4.52	2.76	2.50
	Current ratio				2.62	2.86	2.63				2.71	2.90	2.71
	Long term debt to working capital				2.62	2.95	2.98				2.50	2.80	2.83
	Bad debt to Account receivable ratio				0.00%	4.4.4007	40.4634				0.00%	0.07%	0.08%
	Current Liability ratio				17.80%	14.43%	16.12%				17.67%	14.84%	16.20%
	Total debt to Total Assets				49.33%	53.84%	51.90%				52.04%	56.81%	55.24%
	Debtors turnover ratio				232.74	259.65	318.15				242.24	277.13	310.51
	Inventory turnover ratio				4.77	3.46	3.90				5.01	3.79	4.23
	Operating Margin				10.47%	8.51%	6.87%				9.78%	6.79%	5.38%
26	Net Profit Margin				9.06%	8.10%	7.30%				8.55%	5.86%	4.85%

## Notes:

Mumbai

7<sup>th</sup> February, 2024

SR.

(एम.बी.म्हस्के)

(Rs. in Lacs Nine Months Quarter

Ended

31.12.2022

584.67

584.67

519.67

519.67

728.22

7.14

7.14

उपनिबंधक, सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई

Ended

31.12.2023

113.56

79.27

79.27

74.27

74.27

728.22

1.02

1.02

1.02

Ended

42.87

26.91

26.91

21.91

21.91

728.22

0.30

0.30

0.30

31.12.2023

- The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and nseindia.com) and the Company's website www.trentlimited.com.
- The above unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2023 were reviewed by the Audit Committee and recommended to the Board, which was thereafter taken on record by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 7th February 2024.
- The exceptional item in the previous year in the consolidated financial results includes provisioning of Rs. 3 crores on account of uncertainty of utilisation of accumulated Goods and Services Tax (GST) credit in a downstream entity made during the quarter ended 31st March 2023.
- The statutory auditors of the company have carried out limited review of Standalone and Consolidated financial results for the current quarter and have issued an unmodified opinion.

For and on behalf of the Board of Directors N.N.Tata

Place : Mumbai Date: 07.02.2024

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarte

and Nine months ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchange unde

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations

2015. The full format of Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023, are available on the Stock Exchange website

> For and on behalf of the Board of Director For Trans Freight Containers Ltd

**Badal Mitta** Whole-time-Director



23

## Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999
Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.)
E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

#### **Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months** Ended 31st December, 2023

Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Corresponding 3 Months ended in Previous Year 31.12.2022 (Unaudited)	Year to Date Figures 31.12.2023 (Unaudited
Total Income from Operations	14.9	188.68	1469.27
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-15.5	16.62	104.03
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	16.62	57.81
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.02	14.02	44.96
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-16.02	14.02	42.78
Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-		-2038.37
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic : (in ₹) Diluted : (in ₹)	-0.1 -0.1	0.09 0.09	0.26 0.26

Months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 is available on the website of the Company i.e. **www.midindiaindustries.com** and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

DIN: 01548011

For Mid India Industries Limited Place: Mumbai Sd/-Sanjay Singh, Chairman & Managing Director Date: 07.02.2024

#### invited by the said Society the against proposed transmission. The same should be lodged either with the Hon. Secretary of the said Society or at the office of Shri P.C. Thomas, Advocate, Shop No.

Mumbai - 400092 within 14

documents, if any, failing which

with

needful will be done.

नगर पालिक निगम उज्जैन

Estee Apartments, Saibaba Nagar, Borivli (West),

supporting

10A,

days.

**PUBLIC NOTICE** 

Shri Balbir Singh Kochhar a

ioint member of Green Fields 'B

Co-Op. Housing Society Ltd. Jogeshwari Vikhroli Link Road,

Andheri (East), Mumbai -400 093 holding Flat No. B2-68

and shares 0421 to 0425 expired on 26.01.2024 His son and the other co-owner Mr. Japnam Singh Balbir Singh Kochhar made application to the Society for the transmission of the 50% share of rights, title and interest of the said deceased to his name. Claims and objections, if any, are

(P. C. THOMAS) ADVOCATE HIGH COURT

## कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन

## (Online) GEM-Portal निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र./120/Workshop/GEM-Tender/2024

Place: Indore

Date: 06.02.2024

उज्जैन, दिनांक - 06.02.2024

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट https://gem.gov.in पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सचना ऑनलाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

निम्नांकित कार्य के लिए (Online) GEM Portal निविदा क्रमांक GEM/2024/B/4587889 आमंत्रित की जाती है।

Ф.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी रू.	समय अवधि
1.	Truck Mounted single Engine Sweeper Machine 5 Cu. Mt. Capacity (Q3)	4,00,00,000/-	12,00,000/-	60 दिवस
		*	सहायक यंत्री	ì



CIN No.:- L72900MH2000PLC123841

Regd. Office:-Aptech House, A-65, M.I.D.C., Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093 Contact No.:- 022-68282300 STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023

Particulars	Quarter ended December 23	Quarter ended September 23	Quarter ended December 22	Nine Months Ended December, 23	Nine Months ended December, 22	Year ended March, 23
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	10,064.37	10,931.83	11,745.54	33,274.29	27,845.66	45,691.68
Net Profit/(Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,016.57	1,613.71	2,402.95	4,080.69	4,613.60	8226.1
Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items/Associates)	909.27	1,601.84	2,402.95	3,634.24	4,613.60	8226.1
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items/Associates) from Continuing Operations	674.66	1,142.90	1,776.64	2,628.95	3,433.23	6768.71
Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	599.51	1,126.63	1,655.44	2,563.76	3,338.50	6654.93
Equity Share Capital	5,798.81	5,797.52	4,139.51	5,798.81	4,139.51	4141.45
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						21,493.90
Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - Basic & Diluted						
Basic :	1.16	1.97	3.07	4.53	5.93	11.69
Diluted:	1.16	1.97	3.06	4.53	5.91	11.67

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Results are available on the Stock Exchange websites i.e. https://www bseindia.com/ and https://www.nseindia.com/
- For the quarter and nine months ended December 31 2023 on a Standalone basis, Aptech Limited has reported (a) Turnover of Rs. 4534.16 Lakhs an Rs. 16801.56 lakhs respectively (b) Profit/(loss) before tax of Rs. 464.72 lakhs and Rs. 3914.69 lakhs respectively and (c) Profit/(loss) after tax of Rs. 315.21 Lakhs and Rs. 3306.52 lakhs respectively

Date: 07th February 2024

Anuj Kackei DIN: 00653997



### BEDMUTHA INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: A-70, 71 & 72, S.T.I.C.E. Musalgaon MIDC, Sinnar Nashik-422 103

CIN: L31200MH1990PLC057863

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter / Nine Months ended on December 31, 2023 (Rs. in Lakhs - except otherwise stated)

			,	III. III LUKIIS	except official	visc statea,
Particulars	For the	e Quarter End	led On	For Nine Mon	For Year Ended on	
	Dec-23	Sep-23	Dec-22	Dec-23	Dec-22	Mar-23
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income	20,602.79	20,973.97	16,924.68	62,388.13	54,045.94	74,814.74
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items.	631.91	371.60	527.25	1,347.12	852.52	1,262.29
Share of Profit/(Loss) of associates	17.98	26.80	6.19	72.62	19.21	38.58
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary Items.	649.90	398.40	533.44	1,419.74	871.73	1,300.87
Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items.	649.90	398.40	533.44	1,419.74	871.73	1,300.87
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax).		398.40	533.44	1,419.74	871.73	1,300.87
Paid-up equity share capital, Equity Shares of Rs. 10/each.	3,226.39	3,226.39	3,226.39	3,226.39	3,226.39	3,226.39
Reserves (excluding Revaluation Reserves) and Non Controlling Interest as per balance sheet.						6,725.43
Earning Per Share (*not annualized)						
i. Before extraordinary items						
Basic (Rs.)	2.01*	1.23*	1.65*	4.40*	2.70*	4.03
Diluted (Rs.)	2.01*	1.23*	1.65*	4.40*	2.70*	4.03
ii. After extraordinary Items						
Basic (Rs.)	2.01*	1.23*	1.65*	4.40*	2.70*	4.03
Diluted (Rs.)	2.01*	1.23*	1.65*	4.40*	2.70*	4.03

### Note:

Date: February 7, 2024

1. The above results were reviewed by the Audit Committee, thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on February 7, 2024.

2. Key standalone financial information of the company is given below :-

Particulars	For the	e Quarter End	ed On	For Nine Mon	For Year Ended on			
	Dec-23	Sep-23	Dec-22	Dec-23	Dec-22	Mar-23		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
Total Income	20,602.79	20,973.97	16,924.68	62,388.13	54,045.94	74,814.74		
Profit / ( Loss ) Before Tax	631.91	371.60	527.25	1,347.12	852.52	1,262.29		
Profit / ( Loss ) After Tax	631.91	371.60	527.25	1,347.12	852.52	1,262.29		
The above is an extract of the detailed format of financial require for the guarder / nine months and on December 21, 2002 filed with the								

3. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter / nine months ended on December 31, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated and standalone financial results for the quarter / nine months ended on December 31, 2023 are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.bedmutha.com

for & on behalf of Board of Directors of **Bedmutha Industries Limited** 

Ajay Vedmutha Managing Director and Chief Financial Officer (DIN: 01726879)



#### GTL Limited

Registered Office: "Global Vision", Electronic Sadan - II, MIDC, TTC Industrial Area Mahape, Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India. | Tel: +91 22 2761 2929 | Fax: +91 22 2768 9990 Email: gtlshares@gtllimited.com | Website: www.gtllimited.com | CIN: L40300MH1987PLC045657

#### **EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2023

			(₹ lakhs unless	otherwise stated)
		Quarter ended	Period ended	Quarter ended
	Particulars	31-Dec-23	31-Dec-23	31-Dec-22
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from operations	4,346.00	13,623.28	4,589.49
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	382.31	1,064.21	(44.14)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	382.31	7,460.12	(44.14)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	382.31	7,460.12	(44.14)
5	Total Profit / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	298.80	7,382.09	(88.43)
6	Paid up equity share capital (face value of ₹ 10 per share)	15,729.68	15,729.68	15,729.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year	N.A.	N.A.	N.A.
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations) (Face value of ₹ 10/- each)*	0.24	4.74	(0.03)
	*Basic & Diluted, not annualized			

#### Notes:

- I. The above financial results and the notes thereto have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on
- 2. The financial results for the period ended December 31, 2023 are in compliance with Indian Accounting Standard (Ind -AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs (as amended) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable
- 3. Modified opinion of the Auditor As mentioned in Note No. 6 to the Statement, the Company has neither paid nor provided interest on its borrowings during the quarter ended December 31, 2023. Had such interest been recognised, the finance cost and interest liability for the quarter ended December 31, 2023 would have been more by ₹ 10,678.93 Lakh. Consequently, the reported Profit after Other Comprehensive Income by the Company for the quarter ended December 31, 2023 would have been a loss of ₹ 10,380.13 Lakh. The Earnings per Share (EPS) would have been Negative ₹ 6.55.
- 4. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 / 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website www.gtllimited.com For GTL Limited

Date: February 7, 2024

Sunil S. Valavalkar Whole-time Director (DIN: 01799698)



#### BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65100MH1960PLC011835

22/B, Mittal Tower, 210 Nariman Point, Mumbai - 400 021. Email id:- contact@bomoxy.com | Website: - www.bomoxy.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(₹ in lakhs)

		uarter Ende	d	Nine Mont	Year	
Particulars			-	11	Ended	
raticulais	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	2,231.77	1,406.84	712.71	5,818.15	908.89	261.80
Net Profit / (Loss) for the year (Before tax, Exceptional	2,187.98	1,363.62	666.26	5,685.80	775.91	501.95
and / or Extraordinary items)						
Net Profit / (Loss) for the year before tax (after Exceptional	2,187.98	1,363.62	666.26	5,685.80	775.91	501.95
and /or Extraordinary items)						
Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Exceptional	1,747.16	1,186.45	601.60	4,890.64	708.90	492.46
and /or Extraordinary items)						
Total Comprehensive Income for the year (comprising profit	4,019.10	3,229.83	1,834.67	10,872.02	1,395.97	718.23
or (loss) for the year after tax and other Comprehensive						
income after tax)						
Equity Share Capital	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Earnings Per Share (EPS) of Rs. 100/- each- Basic &	1,164.77	790.96	401.07	3,260.43	472.60	328.31
diluted (not annualised)						

- 1. The above is an extract of the detailed format of the Quarter and Nine Months Ended Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarter and Nine Months Ended Financial Results are available on the Stock Exchange at BSE at www.bseindia.com and on Company's website at www.bomoxy.com.
- 2. The above unaudited financial results of the Company for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023 have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 7th February, 2024.
- 3. The financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 have been reviewed by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.
- 4. The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent
- 5. Comparative financial information of the previous quarter have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to correspond to the figures of current quarter.

By order of the Board Hema Renganathan Whole-Time Director DIN: 08684881

Place: Mumbai

Date: 7th February, 2024

## **EPL LIMITED**

Corporate Office: Top Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

Tel: +91 22 2481 9000/9200. Email: complianceofficer@eplglobal.com Website: www.eplglobal.com

Registered Office: P.O. Vasind, Taluka Shahapur, District Thane 421604, Maharashtra Tel: +91 9673333971 CIN: L74950MH1982PLC028947

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (₹ in Million, except per share data)

			( \	minon, except	per snare data,
Sr.	Particulars	Quarter	Quarter	Nine months	Year
No.		ended	ended	ended	ended
		31-Dec-2023	31-Dec-2022	31-Dec-2023	31-Mar-2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	9,751	9,449	28,869	36,941
2	Net Profit before tax and exceptional items	943	640	2,380	2,691
3	Net Profit before tax after exceptional items	943	640	2,380	2,680
4	Net Profit after tax (after exceptional items) attributable to the owners	861	628	1,909	2,267
	of the Company				
5	Total comprehensive income attributable to the owners of the Company	1,444	1,342	2,238	2,653
6	Equity share capital (Face Value ₹ 2/- each)	637	636	637	636
7	Reserves (excluding Revaluation reserves)	-	-	-	19,256
8	Earnings Per Share (EPS) (in ₹) ^				
	Basic	2.71	1.98	6.00	7.15
	Diluted	2.70	1.98	5.98	7.15

(^ Quarterly and half yearly figures are not annualised)

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(₹ in Million, except per share data						
Sr.		Quarter	Quarter	Nine months	Year	
No.	Particulars	ended	ended	ended	ended	
		31-Dec-2023	31-Dec-2022	31-Dec-2023	31-Mar-2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Revenue from operations	3,222	3,092	9,662	12,086	
2	Net Profit before tax and exceptional items	420	389	1,191	2,002	
3	Net Profit before tax after exceptional items	420	389	1,191	2,002	
4	Net Profit after tax for the period (after exceptional items)	498	495	1,184	2,059	
5	Total comprehensive income for the period	498	495	1,178	2,059	

### NOTES:

- The Unaudited Financial Results of EPL Limited ("Company") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 7, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with stock exchange pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- The full format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website i.e. www.eplglobal.com.

**For EPL Limited** 

Place: Mumbai Date: February 7, 2024

**Anand Kripalu** Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 00118324

